



September 11, 2025

Manager - Listing Compliance
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

Manager - Listing Compliance
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

Scrip code: 532640

Symbol: CYBERMEDIA

Sub.: Submission of Post Issue Advertisement for the Rights Issue

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Regulation 84 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, please find enclosed copy of Post Issue Advertisement with respect to the Rights Issue of the Company published in the newspapers, 'Business Standard' English Edition, and Hindi Edition, both dated September 11, 2025.

Advertisement copy is also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in.

Kindly take above information on your record and oblige.

Yours truly,
For Cyber Media (India) Limited

Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264



ILLUSTRATION: AJAYA MOHANTY

The Eurasia gamble: Delhi's high-speed FTA chase

An ambitious pact with Moscow's bloc could cut tariffs, boost exports from Armenia to Kyrgyzstan, and ease India's dependence on oil imports — but risks inflaming tensions with the West and tying trade to fragile geopolitics

SHREYA NANDI
New Delhi, 10 September

Last week, an image of Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin sharing a car ride to their bilateral meeting in Tianjin, China, on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation summit, captured global attention.

The meeting signalled a deepening of India's strategic relationship with Russia, despite pressure from the West, particularly the US and the European Union. Prioritising economic ties, India and the Russia-led Eurasian Economic Union (EAEU) last month finalised a framework to launch free trade agreement (FTA) talks. Both sides aim to conclude negotiations within 18 months, with the possibility of an earlier conclusion depending on the pace and convergence of discussions.

Inside the Eurasian bloc: Why India can't ignore it

The EAEU is an economic union of five post-Soviet states — Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia — with an integrated single market that came into force in 2015. Russia is the largest country and the bloc's biggest trading partner, accounting for over 92 per cent of the EAEU's total trade with India.

A trade deal with the EAEU has been under discussion for several years. Both sides had agreed to hold initial talks in March 2020 in Moscow to set the agenda and finalise the structure of the joint text. The plan was shelved due to the Covid-19 pandemic.

Talks gained momentum once the pandemic receded, with fresh interest from Russia in 2022 after Western sanctions sought to isolate it over the Ukraine conflict. Since then, India and the EAEU have worked to finalise the broad framework, or terms of reference (ToR), but it was only last month that discussions were expedited.

The finalisation of the ToR comes at a time when New Delhi's ties with Washington have hit a rough patch. A large chunk of Indian exports now face a punitive 50 per cent tariff, making it extremely difficult for marine, garment, and gems and jewellery exporters to access the US market. The rush to sign the FTA is seen as India's attempt to diversify and secure other key export destinations at a time when it has been unable to clinch an interim trade deal with the US, its largest trading partner and export market.

Geopolitics has added to the urgency. Washington argues that India's continued purchase of Russian

Charting trade map India-EAEU trade in 2024-2025 (\$ mn)

Country	Export	Change (Y-o-Y) (%)	Import	Change (Y-o-Y) (%)	Trade balance
Kazakhstan	262.98	11.17	86.19	-9.4	176.79
Kyrgyzstan	46.26	1.19	7.43	-20.4	38.83
Armenia	264.51	180	50.67	40.41	213.84
Belarus	69.33	58.17	37.17	144.27	32.16
Russia	4,881.3	14.55	63,811.44	4.34	-58,930.14

Source: Department of Commerce

oil is helping Moscow fund its Ukraine offensive. It has increased pressure on New Delhi by imposing steep tariffs aimed at curbing India's trade — particularly oil imports — with Russia.

Trade economist Biswajit Dhar described India's move as a calculated risk. "Such FTAs are pivotal for India, both in terms of diversification and accessing new markets — which are essential for export growth. The government has been laying the groundwork for several trade deals over the last few years, especially post-pandemic, and the Eurasian FTA was certainly part of the plan," Dhar said.

He added that with China steadily expanding its trade footprint, India cannot afford to lag and must strive for stronger regional economic integration.

The trade equation: Heavy on oil, light on exports

India's trade with the EAEU is dominated by Russia. Exports to the bloc stood at \$1.16 billion in 2024-25 (FY25), of which \$1.06 billion went to Russia.

Of the \$64 billion in bloc imports, \$63.8 billion came from Russia.

Bilateral trade between India and Russia reached a record \$68.7 billion in FY25 — nearly 5.8 times higher than the pre-pandemic level of \$10.1 billion, according to the Ministry of External Affairs. Of this, exports stood at \$4.88 billion, while imports were \$63.84 billion, mainly due to India's reliance on discounted oil. Bilateral trade in services stood at \$1 billion in 2021. Both sides expect to hit the \$100 billion mark by 2030.

Officials told Business Standard that the trade deal will help narrow India's high deficit with Russia. Beyond tariff cuts in traditional sectors such as footwear, leather, textile, and engineering goods, India also wants to address non-tariff barriers in Russia, particularly for

agriculture and marine products.

"India's trade with Russia is still overwhelmingly oil-driven. Market access barriers have limited our exports," one official said.

According to an analysis by Russian financial institution Sberbank, tariff reductions and the removal of Customs barriers could significantly boost trade. In 2023, India's average weighted import tariff stood at 12 per cent, while tariffs in EAEU countries ranged from 5.4 to 6.5 per cent. Eliminating these could generate savings for both sides.

For Indian companies, promising export areas include machinery, metal products, rubber and plastics, agricultural goods, and pharmaceuticals, according to a report published in April.

Other priorities include resolving payment issues linked to the Vostro-account mechanism, which enables rupee trade with sanctions-hit Russia, and easing logistics bottlenecks.

Beyond borders: Racing to redraw trade routes

Expanding trade with the Eurasian bloc also hinges on improving connectivity. Crucial to this is the operationalisation of the International North-South Transport Corridor (INSTC), a multi-modal network meant to shorten routes between India, Russia, and Central Asia.

But implementation has been slow, mired in geopolitical challenges.

Ajay Sahai, director-general and chief executive officer of the Federation of Indian Export Organisations, said that while the INSTC is crucial, it is not the only option.

"There are direct voyages from Vladivostok to Chennai, and some exporters are also using the Türkiye route to reach Russia. Additionally, the Arctic route — though not operational from November to March — is being explored as another viable alternative," Sahai said.

PUBLIC NOTICE

This is for notice of the general public that a political party is proposed to be registered by the name of **Indian Socialist Janata Dal**. The office of the party is located at H.No.7/96, Ambattu Lane, Anicode, Chittur, Palakkad Dist., Kerala - 678101. This Party has submitted application to the Election Commission of India, New Delhi for its registration as Political Party under Section 29A of the Representation of People Act, 1951 Names/address of the office-bearers of the Party are as follows:

President : Suresh, S/o Krishnan, Chempadam House, Tattamangalam, Chittur Taluk, Palakkad District, Kerala
Vice President : Adv.Dhanush C A, S/o Ajith C.S, Chempadam House, Tattamangalam, Palakkad District, Kerala
General Secretary : Sathesh, S/o Sahadevan, Thayikkottupura House, Kannanur, Section 1, Kuzhalmannam II, Alathur Taluk, Palakkad District, Kerala

Treasurer : Adv. Anitha TS, W/o Sudheer, Meena Nivas, Pallanchathanur, Mathur Panchayath, Alathur Taluk, Palakkad District, Kerala

If anyone has any objection to the registration of Indian Socialist Janata Dal they may send their Objection with reasons thereof, to the Secretary (Political Party) Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 within 30 days of the publication of this notice.



BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

CIN - L15421WB1975PLC030118
Registered Office: FMC Fortuna, 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Phone: +91 33-2287 4749, Fax: +91 33-2287 2887
Email: secretarial@bcmil.in, Website: www.chini.com

NOTICE

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors, a special window has been opened only for re-lodgment of transfer deeds, which were logged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/process/ or otherwise, for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.

During this period, shareholders who wish to avail the opportunity are requested to re-lodge the request after rectifying the errors to KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") - Unit: Balrampur Chini Mills Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 and the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed Company /RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

The detailed circular is also available on the website of the Company at <https://chini.com/investors/investors-referencel>. Shareholders are kindly requested to take note of the above instructions and act accordingly.

By order of the Board of Directors
For Balrampur Chini Mills Limited

Sd/-
Manoj Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A18009

Place: Kolkata
Date : 10h September, 2025

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release outside India and is not an offer Document.



CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Our Company was incorporated as "Cyber Media (India) Limited" at New Delhi as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956, vide Certificate of Incorporation dated September 10, 1982 issued by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Further, the Company received the Certificate for Commencement of Business from the Registrar of Companies, Delhi & Haryana on October 20, 1982. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is L92114DL1982PLC014334. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 47 of this Letter of offer.

Corporate Identity Number: L92114DL1982PLC014334

Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, India

Corporate Office: B-35, Sector -32 Institutional Area, Gurgaon, Haryana, India, 122003

Contact person: Mr. Anoop Singh, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: +91-124-423 7517 | E-mail id: info@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

OUR PROMOTER: MR. PRADEEP GUPTA

ISSUE OF UPTO 62,66,897 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.80 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 5.80 PER RIGHTS EQUITY SHARE") ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UPTO ₹ 1000.00 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY AS ON THE RECORD DATE ("ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS") IN THE RATIO OF 2 (TWO) EQUITY SHARE(S) FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, 01st AUGUST, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE").

#Assuming full subscription in the Issue and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares. Subject to finalisation of Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, 18th August, 2025 and was closed for subscription on Friday, August 29th, 2025 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, 19th August, 2025. Out of the total 981 Applications for 54,22,445 Rights Equity Shares, 392 Applications for 2,59,301 Equity Shares were rejected due to technical reasons. The total number of valid Applications received were 589 for 51,62,479 Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on Tuesday, September 02nd, 2025 in consultation with National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Board of Directors of the Company has on Tuesday, September 02nd, 2025, approved the allotment of 51,62,479 Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, No Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The total number of valid applications eligible to be considered for allotment were as detailed below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Direct	1	32,03,115	2,88,937	34,92,052
Non Renouncees	582	10,31,246	5,28,261	15,59,507
Renouncees	10	88,308	22,612	1,10,920
Total	593	43,22,669	8,39,810	51,62,479

2. Information regarding total applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted			
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Direct	1	0.10	34,92,052	2,75,87,211.00	64.41	34,92,052	2,75,87,210.80	67.64
Non Renouncees	970	98.88	18,18,808	1,43,73,833.20	33.55	15,59,507	1,23,20,105.30	30.21
Renouncees	10	1.02	1,10,920	8,76,268.00	2.05	1,10,920	8,76,268.00	2.15
Total	981	100.00	54,21,780	4,28,37,312.20	100.00	51,62,479	4,07,83,584.10	100.00

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on Wednesday, September 10th, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on Wednesday, September 03rd, 2025. The listing application was executed with BSE & NSE on or about Friday, September 05th, 2025 respectively. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on Wednesday, September 10th, 2025. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/ Unblocking of ASBA Accounts" on page 140 of the Letter of Offer. The trading is expected to commence on or before Friday, 12th September, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be given to NSDL & CDSL on July 15, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:

The Letter of Offer was not required to be filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations, 2018 as the size of issue was less than ₹ 5,000.00 lakhs.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 21, 2025.

REGISTRAR TO THE ISSUE



MUGF Intime India Private Limited
(Formerly Known as Link Intime India Private Limited)
C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083
Telephone: +91-22-4918 6000; Email: mohan.devadiga@in.mpmf.com
Website: www.in.mpmf.com; Investor grievance e-mail: mohan.devadiga@in.mpmf.com
SEBI Registration No.: INR000004058; Contact Person: Mr. Mohan Devadiga

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked in ASBA process, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip and copy of the e-acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 140 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For and on behalf of the Board of Directors of
Cyber Media (India) Limited

Sd/-
Anoop Singh

Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: September 10, 2025

इक्विटी फंडों में निवेश घटा

एनएफओ से संग्रह कम रहा, पांच महीने में पहली बार एसआईपी से निवेश घटा

अभिषेक कुमार
मुंबई, 10 सितंबर

म्युचुअल फंडों की इक्विटी योजनाओं में निवेश अगस्त के दौरान नरम होकर 33,430 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह से इसमें जुलाई के रिकॉर्ड 42,702 करोड़ रुपये के निवेश के मुकाबले 22 फीसदी की गिरावट आई जिसकी प्रमुख वजह एनएफओ से कम संग्रह रही। ऐक्टिव इक्विटी एनएफओ ने अगस्त में 2,056 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया जबकि जुलाई में यह 9,000 करोड़ रुपये था।

मोतीलाल ओसवाल एएमसी के कार्यकारी निदेशक और चीफ बिजनेस ऑफिसर अखिल चतुर्वेदी ने कहा, पिछले महीने की तुलना में निवेश में करीब 9,000 करोड़ रुपये की गिरावट काफी हद तक एनएफओ संग्रह में कमी के कारण आई है। बाकी निवेश की रफ्तार स्थिर और ठीक है।

व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) निवेश में गिरावट का भी निवेश पर असर पड़ा। सकल एसआईपी निवेश 28,265 करोड़ रुपये रहा जो मासिक आधार पर 0.7 फीसदी कम है। जुलाई में एसआईपी निवेश 28,464 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर था। चार महीनों में पहली बार एसआईपी खातों में गिरावट के बीच एसआईपी निवेश में नरमी देखी गई।

उच्चस्तर से गिरावट

महीना	सकल निवेश	शुद्ध निवेश
अगस्त 2024	72,542	38,239
सितंबर 2024	72,167	34,419
अक्टूबर 2024	74,727	41,887
नवंबर 2024	61,697	35,943
दिसंबर 2024	72,116	41,156
जनवरी 2025	66,630	39,688
फरवरी 2025	54,429	29,303
मार्च 2025	56,526	25,082
अप्रैल 2025	56,748	24,269
मई 2025	56,604	19,013
जून 2025	56,944	23,587
जुलाई 2025	75,084	42,702
अगस्त 2025	61,008	33,430

स्रोत: एम्फी (करोड़ रुपये में)

अगस्त में 8.99 करोड़ खातों ने एसआईपी निवेश में योगदान दिया जो जुलाई के 9.11 करोड़ खातों से कम है। पिछली बार योगदान देने वाले एसआईपी खातों में कमी इस साल फरवरी और मार्च में दर्ज की गई थी।

मासिक आधार पर तीव्र गिरावट के बावजूद पिछले महीने इक्विटी म्युचुअल फंडों में निवेश कैलेंडर वर्ष 2025 के पिछले सात महीनों के औसत निवेश से अधिक रहा। मॉनिंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट्स निदेशक

7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ जबकि मिडकैप फंडों में निवेश जुलाई के 5,182 करोड़ रुपये से बढ़कर अगस्त में 5,331 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मासिक आधार पर गिरावट के बावजूद स्मॉलकैप फंडों ने भी लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट एन चलासेनी ने कहा, इक्विटी फंडों में 33,430 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ जो लगातार 54वें महीने सकारात्मक निवेश का संकेत है। फ्लेक्सीकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप फंड जैसी श्रेणियों में मजबूत भागीदारी जारी रही जिसमें मिडकैप फंडों ने अब तक का सबसे अधिक मासिक निवेश दर्ज किया।

डेट और हाइब्रिड स्कीम सेगमेंट में भी निवेश कमजोर हुआ। डेट स्कीमों से अगस्त में लगभग 8,000 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई जबकि जुलाई में यह 1.07 लाख करोड़ रुपये था। हाइब्रिड फंडों में निवेश 20,900 करोड़ रुपये से घटकर 15,300 करोड़ रुपये रह गया।

इक्विटी के साथ-साथ डेट और हाइब्रिड योजनाओं के एक हिस्से में मार्क-टू-मार्केट घाटे के साथ कम निवेश के परिणामस्वरूप उद्योग के एयूएम में 0.2 फीसदी की गिरावट आई। अगस्त महीने के अंत तक एयूएम 75.2 लाख करोड़ रुपये था।

हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, अगस्त में निवेश में आई मजबूती का श्रेय मुख्य रूप से एसआईपी के माध्यम से हुए निरंतर प्रवाह को दिया जा सकता है जिसमें मजबूत मासिक योगदान जारी रहा। खुदरा निवेशकों ने वैश्विक अस्थिरता से प्रभावित हुए बगैर अपना आवंटन जारी रखा। कुल निवेश में गिरावट के बावजूद तीन सबसे लोकप्रिय इक्विटी फंड श्रेणियों फ्लेक्सीकैप, स्मॉलकैप और मिडकैप में निवेश में लगातार तेजी देखी गई। फ्लेक्सीकैप फंडों में लगातार दूसरे महीने

सेबी की नॉन-इंडेक्स डेरिवेटिव योजना को एफआईए का समर्थन

बीएस संवाददाता
मुंबई, 10 सितंबर

डेरिवेटिव कारोबारी निकाय एफआईए इंडस्ट्री एसोसिएशन (एफआईए) ने बाजार नियामक के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें गैर-बैंचमार्क इक्विटी सूचकांकों से संबंधित नए नियमों के क्रियान्वयन के लिए योजना की बात कही गई है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को लिखे पत्र में एफआईए ने नियामक से उसके अगस्त के परामर्श पत्र में सुझाए ऑल्टरनेटिव बी को अपनाने का आग्रह किया है। यह ऐसा तरीका है जिससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए दो अलग-अलग सूचकांक रखने के बजाय मौजूदा सूचकांकों को पुनः भारीकृत और संशोधित किया जा सकेगा।

एफआईए के एशिया-प्रशांत प्रमुख बिल हर्डर ने इस महीने की शुरुआत में एक पत्र में कहा, यह संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण है जिससे बाजार

प्रतिभागियों के लिए निरंतरता सुनिश्चित होगी। साथ ही परिचालन बाधाएं कम होंगी और ट्रांजिशन प्रोसेस में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

बीएसई के बैंकैक्स सूचकांक के लिए एफआईए ने कहा है कि एक बार के लिए रीप्लाइनेमेंट करना उचित है क्योंकि इसे ईटीएफ और इंडेक्स फंड व्यापक रूप से ट्रेड नहीं करते। इस बीच, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सूचकांकों के लिए एफआईए ने चार महीने में कई हिस्सों में समायोजन की सिफारिश की है क्योंकि बड़ी संख्या में ईटीएफ और इंडेक्स फंड इन सूचकांकों को ट्रेड करते हैं।

मई में सेबी ने गैर-बैंचमार्क सूचकांकों (सेसेक्स और निफ्टी 50 के अलावा) में व्यक्तिगत शेयरों के भार को 20 फीसदी पर सीमित कर दिया था जबकि शीर्ष तीन शेयरों की संयुक्त हिस्सेदारी को 45 फीसदी तक सीमित किया गया था। निफ्टी बैंक सूचकांक में 12 शेयर हैं जो सेबी की नई न्यूनतम जरूरत 14 शेयरों से कम है।

एआईएफ को मिलेगी को-इन्वेस्टमेंट योजना की सुविधा

खुशबू तिवारी
मुंबई, 10 सितंबर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) श्रेणी-1 और 2 के वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) को मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए समर्पित 'को-इन्वेस्टमेंट' (सीआईवी) योजना चलाने की अनुमति देगा। लिहाजा, अलग पोर्टफोलियो-मैनेजर लाइसेंस की जरूरत समाप्त हो जाएगी। सोमवार को अधिसूचित नियमों का उद्देश्य एआईएफ मैनेजर्स के लिए अनुपालन बोझ कम करना है।

मान्यता प्राप्त निवेशक से मतलब उन लोगों से है जो नेटवर्थ जैसे कुछ वित्तीय मानदंडों को पूरा करते हैं और नियामकीय मानकों के तहत इसका प्रमाणन लेते हैं। को-इन्वेस्टमेंट से मान्यता प्राप्त निवेशकों को उस गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्ति में भी सीधे निवेश की सुविधा मिलेगी जिसमें एआईएफ भी निवेश कर रहा होगा।

बाजार नियामक ने कहा कि प्रत्येक सीआईवी योजना की परिसंपत्तियों को अन्य योजनाओं की परिसंपत्तियों से अलग रखा जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक सीआईवी योजना का एक अलग बैंक खाता और डीमैट खाता होगा।

आईसी रेगिफिन लीगल में पार्टनर संचित कपूर का कहना है कि 'को-इन्वेस्टमेंट' की परिभाषा अभी भी व्यापक बनी हुई है और इसमें संभवतः वे स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं जिनमें निवेशक और फंड एक ही कंपनी में अलग-अलग चरणों में निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि को-इन्वेस्टमेंट के दायरे में क्या नहीं आया, इस बारे में नियामक की ओर से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।

मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार एआईएफ प्रबंधक सह-निवेश की पेशकश के लिए सीआईवी योजना या वर्तमान पीएमएस विकल्प में से किसी एक को चुन सकते हैं। कपूर ने कहा, 'सीआईवी योजना मान्यता प्राप्त निवेशकों तक ही सीमित है और प्रत्येक योजना के निवेशक मुख्य एआईएफ योजना में से ही होंगे जो सीपीएम की तुलना में भागीदारी तुरंत कम कर देती है। इस योजना में एक ही प्रबंधक/प्रायोजक द्वारा प्रबंधित/प्रायोजित किसी भी योजना के निवेशक की भागीदारी हो सकती है और जरूरी नहीं कि वह एआई हो।'

एआईएफ उद्योग संगठन बाजार नियामक सेबी के साथ परामर्श के दौरान को-इन्वेस्टमेंट लागू करने के मानकों पर आगे बढ़ सकते हैं।

बर्नस्टीन ने बदला भारतीय पोर्टफोलियो

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 10 सितंबर

अंतरराष्ट्रीय रिसर्च और ब्रॉकिंग फर्म बर्नस्टीन ने 6 महीने बाद अपने इंडिया स्टॉक पोर्टफोलियो में फिर से बदलाव किया है और 6 शेयरों को निकालते हुए 5 को जोड़ा है। इस दौरान उसके भारतीय पोर्टफोलियो में 9.8 फीसदी का रिटर्न दिया जो निफ्टी की 8.5 फीसदी की बढ़त के मुकाबले बेहतर है।

बर्नस्टीन ने कहा कि यह संशोधन वित्तीय और उपभोक्ता क्षेत्रों में निवेश और उन शेयरों में लाभ दर्ज करने जैसे बदलावों पर आधारित था। जोड़े गए नए शेयर मजबूत वृद्धि दर्शाते हैं, अपने क्षेत्र की थीमों के अनुकूल हैं और हो सकता है कि सालाना आधार पर बाजार के प्रदर्शन से पिछड़ गए हों। कवरेज में बदलाव के परिणामस्वरूप कुछ शेयरों को हटा दिया गया। उसने

एडीएफसी बैंक और बीमा कंपनी पीबी फिन्टेक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जबकि आईसीआईसीआई बैंक और आईटी कंपनी इन्फोसिस को बाहर कर दिया।

वृहद स्तर पर बाजार की संभावनाओं को आकार देने वाले कारकों का दायरा बढ़ रहा है जिससे कई शेयरों के बारे में पूर्वानुमान मुश्किल होता जा रहा है। बर्नस्टीन के प्रबंध निदेशक और भारत में शोध प्रमुख वेणुगोपाल गैरे ने हाल में सह-लेखक के रूप में लिखे एक नोट में कहा कि भारत के उभरते अंतरराष्ट्रीय तालमेल, घरेलू विनिर्माण और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण होने वाली उथल-पुथल अस्थिर वैश्विक वृहद परिदृश्य के खिलाफ मजबूती देती है, जिसके

दीर्घावधि में निर्णायक होने की संभावना है। गैरे ने कहा, 'इस जटिलता के बीच हम अपने पोर्टफोलियो को जानबूझकर सरल रखते हैं: 11 शेयर उन सेक्टरों पर केंद्रित हैं जिन्हें हम पसंदीदा निवेश मानते हैं। हम पूंजीगत व्यय की तुलना में खपत की ओर झुकाव जारी रखेंगे, साथ ही लाभ कमाने के चक्र में शामिल होने के मौके भी देखेंगे। बाहरी क्षेत्रों से जुड़े सेक्टर नीतिगत अस्थिरता से चुनौती बने हुए हैं और फिलहाल हमारे पसंदीदा आवंटन नहीं हैं।'

बर्नस्टीन ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में नई दिलचस्पी पैदा हुई है, जिसे निराशाजनक आय के बाद उचित मूल्यांकन से समर्थन मिल रहा है और जिनमें जोखिम भी घट गए हैं। अमेरिका में दरों में नरमी से मांग में सुधार की संभावना है।

This is an advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release outside India and is not an offer Document.



CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

Our Company was incorporated as "Cyber Media (India) Limited" at New Delhi as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956, vide Certificate of Incorporation dated September 10, 1982 issued by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Further, the Company received the Certificate for Commencement of Business from the Registrar of Companies, Delhi & Haryana on October 20, 1982. The Corporate Identification Number (CIN) of the Company is L92114DL1982PLC014334. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 47 of this Letter of offer.

Corporate Identity Number: L92114DL1982PLC014334

Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017, India

Corporate Office: B-35, Sector -32 Institutional Area, Gurgaon, Haryana, India, 120003

Contact person: Mr. Anoop Singh, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: +91-124-423 7517 | E-mail id: info@cybermedia.co.in | Website: www.cybermedia.co.in

OUR PROMOTER: MR. PRADEEP GUPTA

ISSUE OF UPTO 62,66,897 PARTLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 15.80 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 5.80 PER RIGHTS EQUITY SHARE") ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UPTO ₹ 1000.00 LAKHS# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY AS ON THE RECORD DATE ("ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS") IN THE RATIO OF 2 (TWO) EQUITY SHARE(S) FOR EVERY 5 (FIVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, 01st AUGUST, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE").

#Assuming full subscription in the Issue and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares. Subject to finalisation of Basis of Allotment.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, 18th August, 2025 and was closed for subscription on Friday, August 29th, 2025 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, 19th August, 2025. Out of the total 981 Applications for 54,22,445 Rights Equity Shares, 392 Applications for 2,59,301 Equity Shares were rejected due to technical reasons. The total number of valid Applications received were 589 for 51,62,479 Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on Tuesday, September 02nd, 2025 in consultation with National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue, the Board of Directors of the Company has on Tuesday, September 02nd, 2025, approved the allotment of 51,62,479 Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, No Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after technical rejections have been considered for Allotment.

1. The total number of valid applications eligible to be considered for allotment were as detailed below:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)		No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)		Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number		Number		Number		Number	
Direct	1		32,03,115		2,88,937		34,92,052	
Non Renounees	582		10,31,246		5,28,261		15,59,507	
Renounees	10		88,308		22,612		1,10,920	
Total	593		43,22,669		8,39,810		51,62,479	

2. Information regarding total applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted			
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Direct	1	0.10	34,92,052	2,75,87,211.00	64.41	34,92,052	2,75,87,210.80	67.64
Non Renounees	970	98.88	18,18,808	1,43,73,833.20	33.55	15,59,507	1,23,20,105.30	30.21
Renounees	10	1.02	1,10,920	8,76,268.00	2.05	1,10,920	8,76,268.00	2.15
Total	981	100.00	54,21,780	4,28,37,312.20	100.00	51,62,479	4,07,83,584.10	100.00

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on Wednesday, September 10th, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on Wednesday, September 03rd, 2025. The listing application was executed with BSE & NSE on or about Friday, September 05th, 2025 respectively. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on Wednesday, September 10th, 2025. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 140 of the Letter of Offer. The trading is expected to commence on or before Friday, 12th September, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements will be given to NSDL & CDSL on July 15, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:

The Letter of Offer was not required to be filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations, 2018 as the size of issue was less than ₹ 5,000.00 lakhs.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated July 21, 2025.

REGISTRAR TO THE ISSUE



MUGF Intime India Private Limited

(Formerly Known as Link Intime India Private Limited)

C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083

Telephone: +91-22-4918 6000; Email: mohan.devadiga@in.mpmf.mugf.com

Website: www.in.mpmf.mugf.com; Investor grievance e-mail: mohan.devadiga@in.mpmf.mugf.com

SEBI Registration No.: INR000004058; Contact Person: Mr. Mohan Devadiga

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs (in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked in ASBA process, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip and copy of the e-acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page 140 of the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For and on behalf of the Board of Directors of
Cyber Media (India) Limited

Place: New Delhi

Date: September 10, 2025

Anoop Singh
Company Secretary and Compliance Officer

सवाल जवाब

जीएसटी मिनी बजट, मिड व स्मॉलकैप में जोखिम

बाजार पिछले कुछ महीनों से एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी शंकरन नरेन ने पुनीत वाधवा को फोन पर बातचीत में बताया कि बाजारों के लिए सबसे बड़ा जोखिम ऊंचे मूल्यांकन और विभिन्न प्रकार के निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में धन उगाहना है जो कम-से-कम सस्ता नहीं है। उनसे बातचीत के अंश:



क्या आप मानते हैं कि जीएसटी 2.0 सरकार की तरफ से एक तरह से मिनी-बजट था? क्या उसने अपने सारे दांव इस्तेमाल कर लिए हैं?

यह वास्तव में मिनी-बजट था जो बहुत सकारात्मक, समय पर और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी था। खपत संबंधित प्रोत्साहन की जरूरत थी, खासकर जब से उपभोक्ता से जुड़े क्षेत्रों में मंदी आई थी। कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य 7.8 प्रतिशत पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद), 4.4 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा जीडीपी के 0.6 प्रतिशत पर (20 वर्षों में सबसे कम) और 2011 के बाद से सबसे कम महंगाई दर के साथ अच्छी स्थिति में है, जिससे नीति निर्माताओं को वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों के लिए गुंजाइश दिखी है। जीएसटी 2.0 जैसा कदम मांग को जरूरी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक और फायदेमंद भी था।

क्या निवेशकों की मानसिकता पर

बाजार और आर्थिक आधारभूत तत्वों के आधार पर निवेश करने के बजाय लालच हावी हो गया है?

जब आपके पास बहुत मजबूत आर्थिक परिवेश हो और लगातार 12 साल तक अच्छे रिटर्न का रिकॉर्ड हो तो निवेशक अक्सर विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में जोखिमों को कम आंकते हैं। इससे लंबी अवधि के अनुशासन पर जोर देना मुश्किल हो जाता है।

क्या लार्ज, मिड या स्मॉलकैप का मूल्यांकन आकर्षक लग रहा है?

इस समय हमें भारतीय इक्विटी बाजार में बुलबुले जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मगर बाजार ज्यादा सस्ते भी नहीं हैं। लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप में जो खिम हैं। कुल मिलाकर, मूल्यांकन पिछले 18 महीनों से भी ज्यादा समय से चुनौती बने हुए हैं और आज भी यही स्थिति है।

इस समय भारतीय शेयर बाजारों के

क्या अब पूंजीगत व्यय के बजाय

खपत, नियात के बजाय घरेलू अर्थव्यवस्था, या मूल्य के बजाय वृद्धि पर दांव लगाने का समय है?

केवल पूंजीगत व्यय के बजाय खपत या मूल्य के बजाय वृद्धि को चुनने से समस्या का समाधान नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है परिसंपत्ति आवंटन यानी विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में पर्याप्त रूप से विविधता। मौजूदा बाजार परिवेश में जोखिमों से निपटने का यही एकमात्र तरीका है।

आपने कई बाजार चक्र देखे हैं। क्या

मौजूदा बाजार चक्र पुराने दौर जैसा है? मौजूदा बाजार चक्र पहले के दौर जैसा नहीं है। आज, व्यापक आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है, जो पहले नहीं थी। अब केवल मूल्यांकन और धन जुटाने में निवेशकों की लगातार रुचि ही मुद्दे हैं। कोई वृहद आर्थिक चिंताएं नहीं हैं, सिर्फ ऊंचा मूल्यांकन और सभी प्रकार के धन उगाहने में निवेशकों की लगातार रुचि है।